

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन काउंसिल ने ईको पार्क स्ट्रैटजी का समर्थन किया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (29 जनवरी, 2020) – आज, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने ब्रैम्पटन ईको पार्क स्ट्रैटजी (Eco Park Strategy) का समर्थन करके ब्रैम्पटन के लिए ग्रीन सिटी (Green City) का निर्माण करने और ग्रीन फ्रेमवर्क (Green Framework) को लागू करने के प्रति महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

ईको पार्क, स्थिर शहरी और कुदरती/हरियाली वाले स्थानों का एक आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क है। ब्रैम्पटन ईको पार्क स्ट्रैटजी, ब्रैम्पटन के ईको पार्क की रचना का वर्णन करती है। यह इसके कार्यान्वयन के मार्गदर्शन के लिए दृष्टिकोण, लक्ष्य और कार्यवाहियां तय करती है। स्ट्रैटजी का उद्देश्य, अद्वितीय सामाजिक अवसर प्रदान करना और ब्रैम्पटन के ईको पार्क को सुरक्षित करने, सहयोग देने और विकसित करने के लिए सामुदायिक भागीदारियों व प्रबंधन का निर्माण करना है। यह ब्रैम्पटन के प्राकृतिक भूदृश्यों को सुरक्षित करने, पुनः प्राकृतिक बनाने और उनकी वृद्धि करने पर भी केंद्रित है।

ब्रैम्पटन का 2,500 हेक्टेयर नैचुरल हेरिटेज सिस्टम (एन.एच.एस.) (Natural Heritage System) (NHS), ब्रैम्पटन ईको पार्क का आधार बनेगा। इस नींव से, ब्रैम्पटन ईको पार्क का विस्तार और विकास, शुरू में पहचाने गए हिस्सों पर केंद्रित होगा, जहां ईको स्पेसिज की स्थापना करके ईको पार्क में, पार्क, एन.एच.एस. (NHS), स्ट्रीट के दृश्यों और उपयोगिता कोरीडोर्स को अनुकूलित किया जाएगा। समय बीतने पर, इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पूरे शहर में ग्रीन पार्क्स नेटवर्क और प्राकृतिक रिज़र्व बनेगा।

www.brampton.ca पर ब्रैम्पटन ईको पार्क स्ट्रैटजी के बारे में और जानें।

संक्षेप तथ्य

- सिटी ने इस समय लगभग 2,500 हेक्टेयर प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखा हुआ है, जिसमें से अधिकतर, ब्रैम्पटन ईको पार्क का आरंभिक मुख्य हिस्सा है। सिटी के मौजूदा पार्क, 1,100 हेक्टेयर की अतिरिक्त जगह पर हैं, जिसमें से थोड़ी जगह को ब्रैम्पटन ईको पार्क में मिलाया जा सकता है।
- ब्रैम्पटन ईको पार्क स्ट्रैटजी में स्टाफ को निर्देश दिया गया है कि वह कार्यनीति बनाकर ब्रैम्पटन के मौजूदा और भविष्योन्मुखी पार्कों में ईको स्पेसिज का विस्तार करने की योजना की पहचान करने के लिए, सिटी के पार्कों के सिस्टम का और मूल्यांकन करे।
- ब्रैम्पटन ईको पार्क में समुदाय के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने की क्षमता है, जैसे पानी को फिल्टर करना, तापमान को कम करना और तूफानी पानी के प्रवाह को कम करना। इससे न केवल आर्थिक बचत होगी, बल्कि बदलती जलवायु में शहरी लचीलेपन में भी वृद्धि होगी।
- ब्रैम्पटन ईको पार्क स्ट्रैटजी, सिटी की नीतियों के मौजूदा फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाती है, जिनमें शामिल हैं, ब्रैम्पटन 2040 प्लान (Brampton 2040 Plan), ब्रैम्पटन ग्रो ग्रीन एनवायरनमेंटल मास्टर प्लान (Brampton Grow Green Environmental Master Plan), पार्क्स एंड रेक्रिएशन मास्टर प्लान (Parks and Recreation Master Plan), नैचुरल हेरिटेज एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट स्ट्रैटजी (Natural Heritage Environmental Management Strategy), अर्बन फोरेस्ट मैनेजमेंट प्लान (Urban Forest Management Plan) और ब्रैम्पटन मिलियन ट्रीज प्रोग्राम (Brampton Million Trees Program)।

हवाले

“काउंसिल हरे-भरे शहर का निर्माण जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रैम्पटन ईको पार्क स्ट्रैटजी हमारे इस स्थिर सफर में दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि को चिन्हित करती है। मुझे कई सामाजिक और वातावरण संबंधी लाभों की अपेक्षा है, जो विस्तृत, आपस में जुड़ा हुआ ब्रैम्पटन ईको पार्क, हमारे शहर को प्रदान करेगा।”

- मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“पिछले वर्ष, ब्रैम्पटन, 35 अन्य समुदायों के साथ जलवायु संबंधी एमरजेंसी घोषित करने में शामिल हुआ था। हमारा लक्ष्य है कि ब्रैम्पटन में 2050 तक ग्रीनहाउस गैस निकासियों को 80% तक कम किया जाए। ब्रैम्पटन ईको पार्क स्ट्रेट्जी का समर्थन करना, उस लक्ष्य की ओर दूसरा कदम है। यह ब्रैम्पटन की हरियाली वाली जगहों को सुरक्षित रखने, सहयोग और विकसित करने के लिए सामुदायिक भागीदारियों और प्रबंधन के निर्माण के लिए शानदार पहलकदमी है।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर और चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“मंजूर की गई ईको पार्क स्ट्रेट्जी के साथ, सिटी का स्टाफ हरा-भरा शहर, पार्कों का आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क बनाने के लिए ब्रैम्पटन के शहरी और प्राकृतिक स्थानों का विस्तार करने की काउंसिल की प्राथमिकता को आगे बढ़ाना जारी रख पाएगा। यह नेटवर्क हमारे शहर के भूदृश्यों को सुरक्षित रखेगा, पुनः प्राकृतिक बनाएगा और इनमें वृद्धि करेगा।”

- *डेविड बैरिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रेट्जिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca